

निर्देश :- सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य।

प्रश्न क्र. 1 से 9 तक अतिलघुउत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक पर 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्र. 10 से 14 तक अतिलघुउत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक पर 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्र. 15 से 19 तक अतिलघुउत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक पर 4 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्र. 20 से 24 दीर्घउत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक पर 6 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्र. 25 एवं 26 दीर्घउत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक पर 8 अंक निर्धारित है।

- प्रश्न 1. लेखांकन को परिभाषित कीजिए।
 प्रश्न 2. आधारभूत लेखांकन समीकरण क्या है ?
 प्रश्न 3. नाम व जमा के नियम को लिखिये।
 प्रश्न 4. सीधी रेखा पद्धति किसे कहते हैं ?
 प्रश्न 5. गुप्त संचय की संकल्पना को समझाइये।
 प्रश्न 6. वित्तीय विवरण किसे कहते हैं ?
 प्रश्न 7. उपार्जित एवं अनुपार्जित आय को समझाइये।
 प्रश्न 8. अवस्था विवरण क्यों बनाया जाता है ?
 प्रश्न 9. लेखांकन प्रतिवेदन किसे कहते हैं ?
 प्रश्न 10. तलपट से अशुद्धि ढूँढने के लिए लेखाकार क्या कदम उठाता है ?
 प्रश्न 11. बैंक समाधान विवरण क्यों बनाया जाता है ?
 प्रश्न 12. व्यापार एवं लाभ-हानि खाता तैयार करने के क्या उद्देश्य हैं ?
 प्रश्न 13. अंतिम खाते बनाते समय समायोजन प्रविष्टि को अभिलेखन करना क्यों आवश्यक है ?
 प्रश्न 14. लेखांकन सॉफ्टवेयर के विभिन्न प्रकारों को समझाइये।
 प्रश्न 15. सम्पत्ति से आप क्या समझते हैं ? इसके प्रकारों को समझाइये।

अथवा

आगम एवं व्यय को आप कैसे परिभाषित करेंगे।

- प्रश्न 16. लेखांकन समीकरण बनाइये।
 (1) हर्ष ने रोकड़ का निवेश कर व्यवसाय प्रारंभ किया 200000
 (2) नमन से रोकड़ देकर माल खरीदा 40000
 (3) 10000 रु. मूल्य की वस्तुएं भानु को बेची 12000
 (4) उधार फर्नीचर खरीदा 7000

अथवा

लेखांकन समीकरण बनाइये।

- (1) कुणाल ने 250000 रु. नकद निवेश कर व्यापार प्रारंभ किया।
 (2) नकद फर्नीचर खरीदा 35000
 (3) नकद कमीशन का भुगतान किया 2000
 (4) उधार माल खरीदा 40000
 (5) 20000 रु. मूल्य की वस्तुएं नकद बेची 26000
 प्रश्न 17. वर्ष 2015 के दिसंबर माह के लेन-देन को द्विस्तंभीय रोकड़ बही में दर्शाये।
 01 रोकड़ से व्यवसाय आरंभ किया 80000
 04 बैंक में नकद जमा कराया 50000
 10 राहुल से नकद प्राप्त किया 1000
 15 नकद माल खरीदा 8000
 22 चेक देकर माल खरीदा 10000
 25 श्याम को नकद भुगतान 20000
 30 कार्यालय उपयोग के लिए बैंक से राशि आहरित 2000
 31 चेक से किराये का भुगतान किया 1000

अथवा

निम्न सूचना से सितम्बर 2015 का द्विस्तंभीय रोकड़ बही बनाइये।

01 हस्तस्थ रोकड़	7500
01 बैंक अधिविकर्ष	3500
03 मजदूरी का भुगतान किया	200
05 नकद विक्रय	7000
10 नकद बैंक में जमा करवाई	4000
15 माल खरीदा व चेक द्वारा भुगतान किया	2000
20 किराये का भुगतान किया	500
25 बैंक से व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रोकड़ निकाली	400
30 वेतन दिया	1000

प्रश्न 18. निम्नलिखित अशुद्धियों को संशोधित कीजिये।

- (1) मोहन को 7000 रु. की उधार बिक्री को नहीं लिखा गया।
- (2) क्रय बही का योग 500 रु. अधिक लगया गया।
- (3) 4000 रु. के किराया भुगतान को भू-स्वामी के व्यक्तिगत खाते में नाम किया गया।
- (4) 10000 रु. के फर्नीचर क्रय को क्रय खाते में लिखा गया।

अथवा

निम्न श्रेष्ठ रमेश मेडिकल की पुस्तकों से लिये गये जिनसे आपको 31 दिसम्बर 2000 को तलपट बनाना है।
वेतन 3000 रु., भवन 40000 रु., पूंजी 64000 रु., देय विपत्र 11600 रु., देनदार 16000 रु., बीमा 550 रु., लेनदार 18100 रु., प्राप्त विपत्र 5000 रु., अप्राप्त ऋण संचिति 1000 रु., बैंक अधिविकर्ष 15000 रु., प्राप्त कमीशन 6000 रु., दान 300 रु., क्रय 1000 रु., विक्रय 22000 रु., क्रय वापसी 300 रु., विक्रय वापसी 700 रु., हस्तस्थ रोकड़ 62450 रु.।

प्रश्न 19. निम्न सूचनाओं से आरंभिक पूंजी की गणना करें।

वर्ष के अंत में पूंजी	400000
वर्ष के दौरान आरहण	60000
वर्ष के दौरान नई पूंजी लगायी	100000
चालू वर्ष का लाभ	80000

अथवा

निम्न सूचनाओं से कुल क्रय की गणना करें।

01 अप्रैल 2015 को लेनदार	30000
31 मार्च 2016 को लेनदार	20000
देय विपत्र का आरंभिक शेष	25000
देय विपत्र का अंतिम शेष	151000
विपत्र का भुगतान	44500
नकद क्रय	129000
क्रय वापसी	6000

प्रश्न 20. "साधारणतः लेखांकन संकल्पनाओं व लेखांकन मानकों को वित्तीय लेखांकन का सार कहा जाता है।" टिप्पणी कीजिए।

अथवा

लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इनकी प्रमुख विशेषताओं को समझाइये।

प्रश्न 21. 31 मार्च 2001 को रोकड़ बही के अनुसार जमा शेष 8500 रु. था। निम्न व्यवहारों के आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिये।

- (1) 1000 रु. के चेक बैंक भेजे गये परन्तु संग्रहित नहीं हुए।
- (2) 2000 रु. के चेक जारी किये गये परन्तु 1500 के चेक भुगतान हेतु उपस्थित हुए।
- (3) 75 रु. ब्याज केवल पासबुक में डेबिट है।
- (4) 300 रु. ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा किये गये।
- (5) 500 रु. बीमा प्रीमियम का भुगतान बैंक द्वारा किया गया परन्तु रोकड़ बही में नहीं लिखा गया।
- (6) 1200 रु. का एक चेक जमा कराया किन्तु अप्रतिष्ठित हो गया।

अथवा

पासबुक का अधिविकर्ष 30 जून 2000 को 800 रु. था। बैंक समाधान विवरण पत्र बनाइये।

- (1) 1500 रु. और 1800 रु. के चेक भेजे गये पर इनकी राशि का संग्रह 30 जून तक नहीं हो पाया।
- (2) 500 रु. और 700 रु. के चेक निर्गमित किये गये पर भुगतान के लिये प्रस्तुत नहीं हुए।
- (3) बैंक ने 500 रु. अधिविकर्ष पर ब्याज लगाया।

(4) 200 रु. बैंक में ग्राहक ने सीधे जमा किये जिनका लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ।

प्रश्न 22. एक कम्पनी ने 1 जनवरी 2011 को 40000 रु. की एक प्रिंटिंग मशीन खरीदी एवं 5000 रु. इसकी दुलाई एवं स्थापना पर व्यय किये। जुलाई 2013 को एक और मशीन 35000 रुपये में खरीदी। 10% वार्षिक की दर से स्थायी किस्त पद्धति के अनुसार हास लगाया जाता है। 5 वर्षों का प्रिंटिंग मशीन खाता बनाइये।

अथवा

लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट लि. ने 1 अक्टूबर 2011 को 800000 रु. में एक ट्रक खरीदा। इस ट्रक पर 15% वार्षिक से हास मान शेष पद्धति से हास लगाया गया। 31 दिसम्बर 2013 को इस ट्रक को 500000 रु. में बेच दिया गया। खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद किये जाते हैं। चार वर्ष के लिए मशीन खाता बनाइये।

प्रश्न 23. निम्नलिखित सूचनाओं से 31 दिसम्बर 2015 तक व्यापार एवं लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा तैयार कीजिये।

खातों का नाम	राशि	खाते का नाम	राशि
मशीनरी	27000	पूंजी	60000
विविध देनदार	21600	देय विपत्र	2800
आहरण	2700	विविध लेनदार	1400
क्रय	58500	विक्रय	73500
मजदूरी	15000		
विविध व्यय	600		
किराया व कर	1350		
आंतरिक दुलाई	450		
बैंक	4500		
प्रारंभिक स्टॉक	6000		

अथवा

मे. आहूजा और नन्दा की पुस्तकों में नीचे दिये गये शेषों को लिखा गया है। राशि की गणना करें।

(अ) बेचने के लिए उपलब्ध माल की लागत (ब) एक साल में बेचे गये माल की लागत (स) सकल लाभ

प्रारंभिक स्टॉक	25000 रु.
उधार क्रय	750000 रु.
नकद क्रय	300000 रु.
उधार विक्रय	1200000 रु.
नकद विक्रय	400000 रु.
मजदूरी	100000 रु.
वेतन	140000 रु.
अंतिम स्टॉक	30000 रु.
विक्रय वापसी	50000 रु.
क्रय वापसी	10000 रु.

प्रश्न 24. मानवीय व कम्प्यूटरीकृत लेखांकन के बीच अन्तर स्पष्ट कीजिए।

अथवा

कम्प्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली के लाभ एवं सीमार्यों को बताइये।

प्रश्न 25. दर्शन ने वरुण को 40000 रु. का माल बेच तथा दो माह की अवधि के लिए एक विपत्र लिखा। वरुण ने विपत्र पर अपनी स्वीकृति दी और दर्शन को विपत्र वापिस भेज दिया।

निम्न परिस्थितियों में लेखक की पुस्तकों में प्रविष्टियां कीजिये।

- (1) जब दर्शन द्वारा विपत्र परिपक्वता तिथि तक स्वयं के पास रखता है।
- (2) जब दर्शन 6% प्रतिवर्ष की दर से विपत्र को बैंक से भुना लेता है।
- (3) जब दर्शन विपत्र को तत्काल अपने लेनदार सुरेश को बेचान कर देता है।
- (4) जब दर्शन परिपक्वता तिथि से तीन दिन पूर्व विपत्र को संग्रह हेतु बैंक भेजता है।

अथवा

2 मार्च 2015 को आशा ने 19000 रु. का माल निशा को उधार बेचा। 4000 रु. का तत्काल भुगतान किया और शेष राशि के लिए तीन माह की अवधि का एक विपत्र लिखा। आशा ने विपत्र को बैंक से भुनाया। परिपक्वता तिथि पर निशा का विपत्र अनादृत हुआ तथा बैंक ने निकर्वाई के 30 रु. दिये। आशा की पुस्तकों में प्रविष्टियां कीजिये।

प्रश्न 26. 31 दिसम्बर 2000 को निम्न विवरण से व्यापार एवं लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा बनाइये।

विवरण	राशि	विवरण	राशि
क्रय	80000	पूँजी	210000
बैंक शेष	11000	देय विपत्र	6500
मजदूरी	34000	विक्रय	200000
देनदार	70300	लेनदार	50000
हस्तस्थ रोकड़	1200	क्रय वापसी	4000
कानूनी शुल्क	4000		
भवन	60000		
मशीनरी	120000		
प्राप्य विपत्र	7000		
कार्यालय व्यय	3000		
प्रारंभिक स्टॉक	45000		
गैस तथा ईंधन	2700		
दुलाई तथा भाड़ा	3500		
कारखाना प्रकाश	5000		
कार्यालय फर्नीचर	5000		
पेटेंट अधिकार	18800		
	470500		470500

समायोजन :- (1) मशीन पर 10% तथा भवन पर 6% हास लगाये ।

(2) पूँजी पर ब्याज की दर 4% है ।

(3) बकाया मजदूरी 50 रुपये हैं । (4) अंतिम स्टॉक 50000 रु. है ।

अथवा

के.व.व.व.व. से प्राप्त शेषों से 31 मार्च 2015 को व्यापार एवं लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा बनाइये ।

विवरण	राशि	विवरण	राशि
मशीनरी	130000	विक्रय	300000
देनदार	50000	क्रय वापसी	2500
ब्याज	2000	लेनदार	250000
मजदूरी	1200	देय विपत्र	70000
वेतन	2500	संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	1550
आंतरिक दुलाई भाड़ा	500	पूँजी	220000
बाह्य दुलाई भाड़ा	700	प्राप्त किराया	10380
विक्रय वापसी	2000	प्राप्त कमीशन	16000
कारखाने का किराया	1450		
कार्यालय का किराया	2300		
बीमा	780		
फर्नीचर	22500		
भवन	280000		
प्राप्य विपत्र	3000		
हस्तस्थ रोकड़	22500		
बैंक में रोकड़	35000		
कमीशन	500		
प्रारंभिक स्टॉक	60000		
क्रय	250000		
दूबत ऋण	3500		
	870430		870430

समायोजन :- (1) संदिग्ध ऋणों के लिये 5% की दर से प्रावधान व अन्य दूबत ऋण 2000 रु. ।

(2) अग्रिम प्राप्त किराया 6000 रु. । (3) पूर्ववत् बीमा 200 रु. ।

(4) फर्नीचर पर 5%, मशीन पर 6% भवन पर 7% हास लगाये ।